

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 437]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 अगस्त 2023 — भाद्रपद 9, शक 1945

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़  
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2023

अधिसूचना

क्रमांक-01/03/द्वितीय निर्वा.नामा./पुन.-2023/3630. — छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 01-10-2023 के संदर्भ में आयोजित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 के लिये भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-23/2023-ईआरएस (खंड-II) दिनांक 29 अगस्त, 2023 के अनुसरण में एतद्वारा सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

हस्ता./—

(रीना बाबासाहेब कंगाले)  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

**भारत निर्वाचन आयोग**  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त, 2023 - 7 भाद्रपद, 1945 शक

**अधिसूचना**

यतः, निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र सं. 23/2023-ईआरएस (खंड II) दिनांक 24 मई, 2023 के द्वारा 01-10-2023 की अर्हक तिथि के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी थी; और

यतः, सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रारूप नामावलियां यथा-निर्धारित 02 अगस्त, 2023 को प्रकाशित की गई थीं; और

यतः, दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 02 अगस्त, 2023 से 31 अगस्त, 2023 तक नियत की गई थी; और

यतः, निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के चल रहे कार्य की समीक्षा के उपरान्त एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई अनुशंसा से सहमत होते हुए यह निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 11 सितंबर, 2023 तक विस्तारित की जाए।

अतः अब, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग द्वारा 01-10-2023 की अर्हक तिथि के संदर्भ में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 11 सितम्बर, 2023 (सोमवार) को सम्मिलित करते हुए एतद्द्वारा इस तारीख तक विस्तारित की जाती है।

आदेश से,

हस्ता./-

(एस. बी. जोशी)  
प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 29th August, 2023 - 7 Bhadra, 1945 Saka

NOTIFICATION

Whereas, the Election Commission had announced the schedule for Special Summary Revision of Photo electoral rolls in Chhattisgarh State with reference to 01-10-2023 as the qualifying date vide its letter No. 23/2023-ERS (Vol. II) dated 24th May, 2023; and

Whereas, the draft rolls for all Assembly Constituencies were published on 02nd August, 2023 as scheduled; and

Whereas, the period of filing claims and objections was fixed from 02nd August, 2023 to 31st August, 2023; and

Whereas, the Election Commission, while reviewing the ongoing exercise of Special Summary Revision of Electoral Rolls in Chhattisgarh and considering the request to extend the period of filing claims and objections as well as the recommendation of the CEO, Chhattisgarh in this regard, has decided that the period of filing claims and objections in Chhattisgarh State should be extended up to 11th September, 2023.

Now, therefore, the Election Commission, in exercise of the powers conferred by the proviso to Rule 12 of the Registration of Electors Rules, 1960, hereby extends the period for filing claims and objections, for all Assembly Constituencies in the State of Chhattisgarh upto and including 11th September, 2023 (Monday) for ongoing Special Summary Revision of Photo electoral rolls with reference to 01-10-2023 as the qualifying date.

By order,

Sd/-

**(S.B. Joshi)**  
Principal Secretary.